

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|--|-------------------------|
| सं. 187] | दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2017/वैशाख 27, 1939 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 61 |
| No. 187] | DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939 | [N.C.T.D. No. 61 |

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2017

सं.फा. 7/79/एडीएलबी/2016/सीडी-000383132/3827-3841.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित गाँव के क्षेत्रों तथा कॉलम 1 में उल्लिखित राजस्व सम्पदा/जोन जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के भाग हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से हटाया जाएगा और अब उन्हें शहरी क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :-

अनुसूची

| योजना क्षेत्र | क्र० सं० | गाँव का नाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम - 50 गाँव | शहरीकरण के क्षेत्रफल का विवरण |
|----------------|----------|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| जोन के-1, 5 न० | 01 | कमरुद्दीन नगर | गाँवों की पुरानी आबादी के साथ-साथ पूरी राजस्व सम्पदा को शहरी घोषित किया जाता है । |
| | 02 | किरारी सुलेमान नगर (भाग) | -वही- |
| | 03 | मुंडका (जोन एल में भाग और रोहिणी उप-शहर) | -वही- |
| | 04 | नांगलोई जाट (भाग) | -वही- |
| | 05 | निलोटी (भाग) | -वही- |
| जोन एल-1, | 06 | नीलवाल | -वही- |
| जोन 'एन' 21 न० | 07 | बाजिदपुर ठकरान | -वही- |
| | 08 | नांगल ठकरान | -वही- |
| | 09 | बवाना (जोन पी-1 में भाग) | -वही- |
| | 10 | पुठखुर्द (जोन एम में भाग) | -वही- |
| | 11 | सुल्तानपुर डबास | -वही- |

| | | | |
|-------------------------|----|--|-------|
| | 12 | सलाहपुर मांजरा | -वही- |
| | 13 | बुधानपुर | -वही- |
| | 14 | कटेवड़ा | -वही- |
| | 15 | जट खोर | -वही- |
| | 16 | चाँदपुर | -वही- |
| | 17 | लाडपुर | -वही- |
| | 18 | कंझावला | -वही- |
| | 19 | कराला(जोन एम में भाग) | -वही- |
| | 20 | मदनपुर डबास(जोन एम में भाग) | -वही- |
| | 21 | मोहम्मदपुर माजरी (जोन एम में भाग) | -वही- |
| | 22 | रानी खेड़ा (जोन एम में भाग) | -वही- |
| | 23 | रसूलपुर | -वही- |
| | 24 | घेवरा (जोन एल में भाग) | -वही- |
| | 25 | सावदा | -वही- |
| | 26 | दरियापुर कलां (जोन पी-1 में भाग) | -वही- |
| | 27 | खेड़ा खुर्द (जोन एम और जोन पी-1 में भाग) | -वही- |
| जोन 'पी - 11' 23 नं0 | 28 | अकबरपुर माजरा | -वही- |
| | 29 | भलस्वा डेयरी / जहांगीर पुरी (जोन सी में भाग) | -वही- |
| | 30 | बुराड़ी (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 31 | इब्राहीमपुर(जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 32 | झड़ोदा माजरा (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 33 | जींदपुर (जोन पी 1 में भाग) | -वही- |
| | 34 | कादीपुर | -वही- |
| | 35 | कमालपुर माजरा | -वही- |
| | 36 | खामपुर (जोन पी 1 में भाग) | -वही- |
| | 37 | मोहम्मदपुर रमजानपुर (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 38 | मुकंदपुर (जोन सी में भाग) | -वही- |
| | 39 | मुखमेलपुर | -वही- |
| | 40 | नगलीपूना (जोन पी 1 में भाग) | -वही- |
| | 41 | सलीमपुर माजरा, बुराड़ी (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 42 | तीगीपुर (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 43 | फतेहपुर जाट (जोन ओ में भाग) | -वही- |
| | 44 | समयपुर (जोन सी में भाग) | -वही- |
| | 45 | लिवासपुर (जोन सी में भाग) | -वही- |
| | 46 | सिरसपुर (जोन पी-1 और जोन-सी में भाग) | -वही- |
| | 47 | बीजापुर (पी-1 में भाग) | -वही- |
| | 48 | अलीपुर (जोन पी-1 में भाग) | -वही- |
| | 49 | टिकड़ी खुर्द (मुख्यतः जोन पी-1 में, लगभग 3-5 हे0 पी-2 में भाग) | -वही- |
| | 50 | गढ़ी खुसरो | -वही- |
| | | दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-39 गाँव | |
| जोन 'जे'-1 न0 | 51 | नेवसराय | -वही- |
| जोन 'के'-1, 11 न0 | 52 | बक्करवाला | -वही- |
| | 53 | वापरौला | -वही- |
| | 54 | गोयला खुर्द | -वही- |
| | 55 | हस्तसाल (भाग) | -वही- |
| | 56 | कुतबपुर | -वही- |
| | 57 | नगली सकरावती (जोन एल में भाग) | -वही- |
| | 58 | नवादा माजरा (भाग) | -वही- |
| | 59 | सफीपुर रनहोला | -वही- |
| | 60 | राजापुर खुर्द | -वही- |
| | 61 | ताजपुर खुर्द (जोन एल में भाग) | -वही- |

| | | | |
|----------------|----|---------------------------------|-------|
| | 62 | तिलंगपुर कोटला | -वही- |
| जोन 'एल' 27 न० | 63 | असालतपुर खावद | -वही- |
| | 64 | छावला (जोन के -1 में भाग) | -वही- |
| | 65 | दरयापुर खुर्द | -वही- |
| | 65 | दौलतपुर | -वही- |
| | 66 | दिचाऊ कलां | -वही- |
| | 67 | दिनदारपुर (जोन 'के' -1 में भाग) | -वही- |
| | 68 | ळसनपुर | -वही- |
| | 70 | जाफरपुर कलां | -वही- |
| | 71 | जाफरपुर (हिरनकूदना) | -वही- |
| | 72 | झुलझुली | -वही- |
| | 73 | खड़खड़ी जाटमल | -वही- |
| | 74 | खड़खड़ी नाहर | -वही- |
| | 75 | खड़खड़ी पौंड | -वही- |
| | 76 | खेड़ा | -वही- |
| | 77 | खेड़ा डाबर | -वही- |
| | 78 | मलिकपुरजर नजफगढ़ | -वही- |
| | 79 | पिंडवाला कलां | -वही- |
| | 80 | पपरावत | -वही- |
| | 81 | पिंडवाला खुर्द | -वही- |
| | 82 | काजीपुर | -वही- |
| | 83 | रावला खानपुर | -वही- |
| | 84 | रौशनपुरा (जोन 'के' -1 में भाग) | -वही- |
| | 85 | सारंगपुर | -वही- |
| | 86 | समसपुर खालसा | -वही- |
| | 87 | सुरहेड़ा | -वही- |
| | 88 | शेरपुर डेयरी | -वही- |
| | 89 | उजवा | -वही- |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलदीप पाकड़, विशेष सचिव (शहरी विकास)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2017

No. F. 7/79/ADLB/2016/CD-000383132/3827-3841.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 507 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the areas of villages mentioned in column 3 of the Schedule below and falling in the revenue estate / zone mentioned in column 1, hitherto part of the rural areas, shall, cease to be the rural areas and shall be deemed as Urban areas, namely:-

SCHEDULE

| Planning Zone | S/No. | Name of village North DMC – 50 Villages | Particulars of the Area Urbanised |
|---------------------|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zone 'K-I' 5 No. | 1 | Kamruddin Nagar | The old abadis as well as the entire Revenue Estate of the said village declared as Urban |

| | | | |
|-----------------------|----|---|--------------|
| | 2 | Kirari Suleman Nagar (Part) | ---- do ---- |
| | 3 | Mundka (Part in Zone L & Rohini Sub-City) | ---- do ---- |
| | 4 | Nangloi Jat (Part) | ---- do ---- |
| | 5 | Nilothi (Part) | ---- do ---- |
| Zone 'L' 1 No. | 6 | Neelwal | ---- do ---- |
| Zone 'N' 21 No. | 7 | Bazidpur Thakran | ---- do ---- |
| | 8 | Nangal Thakran | ---- do ---- |
| | 9 | Bawana (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 10 | Puath-Khurd (Part in Zone M) | ---- do ---- |
| | 11 | Sultanpur Dabas | ---- do ---- |
| | 12 | Salahpur Majra | ---- do ---- |
| | 13 | Budhanpur | ---- do ---- |
| | 14 | Katawada | ---- do ---- |
| | 15 | Jat Khor | ---- do ---- |
| | 16 | Chandpur | ---- do ---- |
| | 17 | Ladpur | ---- do ---- |
| | 18 | Kanjhawala | ---- do ---- |
| | 19 | Karala (Part in Zone M) | ---- do ---- |
| | 20 | Madanpur Dabas (Part in Zone M) | ---- do ---- |
| | 21 | Mohammadpur Majri (Part in Zone M) | ---- do ---- |
| | 22 | Rani Khera (Part in Zone M) | ---- do ---- |
| | 23 | Rasulpur | ---- do ---- |
| | 24 | Ghewra (Part in Zone L) | ---- do ---- |
| | 25 | Sawda | ---- do ---- |
| | 26 | Daryapur Kalan (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 27 | Khera Khurd (Part in Zone M & Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| Zone 'P-II' 23 No. | 28 | Akbarpur Majra | ---- do ---- |
| | 29 | Bhalsawa Dairy/Jahangirpuri (Part in Zone C) | ---- do ---- |
| | 30 | Burari (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 31 | Ibrahimpur (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 32 | Jharoda Majra (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 33 | Jindpur (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 34 | Kadipur | ---- do ---- |
| | 35 | Kamalpur Majra | ---- do ---- |
| | 36 | Khampur (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 37 | Mohammadpur Ramzanpur (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 38 | Mukandpur (Part in Zone C) | ---- do ---- |
| | 39 | Mukhmalpur | ---- do ---- |
| | 40 | Nanglipuna (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 41 | Saleempur Majara, Burari (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 42 | Tiggipur (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 43 | Fatehpur Jat (Part in Zone O) | ---- do ---- |
| | 44 | Samapur (Part in Zone C) | ---- do ---- |
| | 45 | Libaspur (Part in Zone C) | ---- do ---- |
| | 46 | Seeraspur (Part in Zone P-I & Part in Zone C) | ---- do ---- |
| | 47 | Bijapur (Part in P-I) | ---- do ---- |
| | 48 | Alipur (Part in Zone P-I) | ---- do ---- |
| | 49 | Tikri Khurd (Majority in Zone P-I, about only 3-5 Ha in P-II) | ---- do ---- |
| | 50 | Gadi Khasro | ---- do ---- |
| | | South DMC – 39 Villages | |

| | | | |
|----------------------|----|-----------------------------------|--------------|
| Zone 'J' 1 No. | 51 | Neb Sarai | ---- do ---- |
| Zone 'K-I' 11 No. | 52 | Bakkarwala | ---- do ---- |
| | 53 | Baprola | ---- do ---- |
| | 54 | Goela Khurd | ---- do ---- |
| | 55 | Hastal (Part) | ---- do ---- |
| | 56 | Qutabpur | ---- do ---- |
| | 57 | Nangli Sakrawati (Part in Zone-L) | ---- do ---- |
| | 58 | Nawada Majra (Part) | ---- do ---- |
| | 59 | Safipur Ranhola | ---- do ---- |
| | 60 | Rajapur Khurd | ---- do ---- |
| | 61 | Tajpur Khurd (Part in Zone-L) | ---- do ---- |
| | 62 | Tilangpur Kotla | ---- do ---- |
| Zone 'L' 27 No. | 63 | Asalatpur Khawad | ---- do ---- |
| | 64 | Chhawla (Part in Zone-K-I) | ---- do ---- |
| | 65 | Daryapur Khurd | ---- do ---- |
| | 66 | Daulatpur | ---- do ---- |
| | 67 | Ditchaon Kalan | ---- do ---- |
| | 68 | Dindarpur (Part in Zone-K-I) | ---- do ---- |
| | 69 | Hasanpur | ---- do ---- |
| | 70 | Jafarpur Kalan | ---- do ---- |
| | 71 | Jafarpur (Hirankunda) | ---- do ---- |
| | 72 | Jhuljhuli | ---- do ---- |
| | 73 | Kharkhari Jatmal | ---- do ---- |
| | 74 | Kharkhari Nahar | ---- do ---- |
| | 75 | Kharkhari Pond | ---- do ---- |
| | 76 | Khaira | ---- do ---- |
| | 77 | Khera Dabur | ---- do ---- |
| | 78 | Malikpurzer Najafgarh | ---- do ---- |
| | 79 | Pindwala Kalan | ---- do ---- |
| | 80 | Paprawat | ---- do ---- |
| | 81 | Pindwala Khurd | ---- do ---- |
| | 82 | Qazipur | ---- do ---- |
| | 83 | Rawla Khanpur | ---- do ---- |
| | 84 | Roshanpura (Part in Zone-K-I) | ---- do ---- |
| | 85 | Sarangpur | ---- do ---- |
| | 86 | Shampur Khalsa | ---- do ---- |
| | 87 | Surehara | ---- do ---- |
| | 88 | Sherpur Dairy | ---- do ---- |
| | 89 | Ujwa | ---- do ---- |

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

KULDEEP PAKAD, Spl. Secy. (Urban Development)